

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 अगस्त 2022 — श्रावण 13, शक 1944

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 अगस्त 2022

## अधिसूचना

क्र. एफ 5-10/आठ-परि./2020.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान” की व्यवस्था के अंतर्गत, इसमें विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधधीन रहते हुए, निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

1. त्रैमासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जायेगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।
2. (क) मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जायेगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा;  
(ख) मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि “व्हील-बेस” के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में “एक मुश्त निपटान” की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जायेगी।
3. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लिखित शास्ति में छूट, केवल “एक मुश्त निपटान” योजना की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक होगी। “एक मुश्त निपटान” योजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 2nd August 2022

NOTIFICATION

No. F 5-10/VIII-Trans./2020.— In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, grants the rebate in amount recoverable under Tax , Penalty and Interest as per the provision of Section 15 of the said Adhiniyam under the arrangement of "One Time Settlement" subject to the restriction and conditions specified herein, as follows, namely:-

1. Full rebate on amount of pending penalty imposed from the period of 1st April , 2013 to 31st December, 2018 for the quarterly taxpaying vehicles. Pending tax and interest imposed on vehicles shall be payable .
2. (a) Full rebate on amount of pending penalty imposed from the period of 1st April, 2013 to 31st December, 2018 for the monthly taxpaying vehicles. Pending tax and interest imposed on vehicles shall be payable;  
  
(b) Pending tax and interest shall be payable, if tax, penalty and interest is imposed because of 'wheelbase' for the monthly taxpaying vehicles (passenger vehicles), but full rebate upto prescribed period of "One Time Settlement" on penalty imposed.
3. Rebate on penalty stated in point 1 and 2 above is only for period of from 1st April, 2022 to 31st March, 2023 "One Time Settlement" Scheme. After expiration of "One time Settlement" scheme period, full amount including tax, penalty and Interest shall be recoverable.

This Notification shall come in to force with retrospective effect from 1 April, 2022 .

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.